



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 श्रावण 1936 (श0)  
(सं0 पटना 644) पटना, शुक्रवार, 8 अगस्त 2014

---

सं0 3ए-2-वे०पु०-11/2013-7183/वि०  
वित्त विभाग

-----

प्रेषक,

प्रभात शंकर,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
महालेखाकार कार्यालय,  
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक 7 अगस्त 2014

विषय :- तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग के अधीन तकनीकी सहायक के परिवर्तित पदनाम तकनीकी पदाधिकारी के लिए दिनांक 01/01/96 एवं 01/01/06 से स्वीकृत वेतनमान अनुमान्य करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उद्योग विभाग के पत्रांक-328, दिनांक 19/02/1986 के द्वारा तकनीकी सहायक का पदनाम तकनीकी पदाधिकारी के पदनाम में परिवर्तित किया गया है।

सूचना अप्राप्त होने के कारण तकनीकी पदाधिकारी के नाम से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01/01/96 के एवं 01/01/06 के प्रभाव से तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग के अधीन तकनीकी सहायक के लिए स्वीकृत वेतनमान को तकनीकी पदाधिकारी के लिए अनुमान्य करने का निर्णय लिया जाता है, जो निम्नवत् है—

पदनाम	वर्ष	वेतनमान
तकनीकी सहायक / तकनीकी पदाधिकारी	दिनांक 01/01/96 से	रु0 5000-8000/-
	दिनांक 01/01/06 से	PB-2+4200/-

विश्वासभाजन,  
प्रभात शंकर,  
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 644-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>